

*Or* (अथवा)

Discuss and differentiate the domestic and export procedures in GST regime. Give examples

GST शासन में घरेलू तथा निर्यात प्रक्रियाओं में अन्तर स्पष्ट करते हुए वर्णन कीजिए । उदाहरण दीजिए ।

12. Write short notes on the following :

- (a) GST exemptions for small-scale Business
- (b) GST tax planning for services industries
- (c) SGST and CGST. **12**

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (अ) लघु उद्योग व्यवसाय के लिए GST छूटें
- (ब) सेवा उद्योगों के लिए GST कर नियोजन
- (स) SGST तथा CGST ।

*Or* (अथवा)

“Processing and manufacturing of goods determine the rate of GST.” Elucidate.

“माल का प्रसंकरण तथा निर्माण GST की दर निर्धारित करते हैं ।” व्याख्या कीजिए ।

Roll No. ....

Exam Code : J-19

Subject Code—0814

Post Graduate Diploma in Taxation  
(PGDT) EXAMINATION

(For Batch 2009 to 2017 Re-appear)

GOODS AND SERVICES TAX

PGDT-103

(Batch 2017 Only)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 70

Section A

खण्ड 'अ'

**Note :** Explain and exemplify only *seven* of the following questions in not more than **90-100** words each : **7×5=35**

निम्नलिखित में से किन्हीं सात प्रश्नों की व्याख्या **90-100** अधिक से अधिक शब्दों में कीजिए ।

1. Briefing the nature of GST tax planning.  
GST कर नियोजन की प्रकृति की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए ।
2. Classification of goods and services under GST.  
GST के तहत माल तथा सेवाओं का वर्गीकरण ।
3. GST tax and Small Scale Business.  
GST कर तथा लघु उद्योग व्यवसाय ।
4. Provisions regarding IGST and UTGST.  
IGST तथा UTGST के संबंध में प्रावधान ।
5. Penalties and recovery provisions in GST.  
GST में दण्ड तथा रिकवरी प्रावधान ।
6. Provisions regarding HSN and GSTN under GST.  
GST के तहत GSTN के सम्बन्ध में प्रावधान ।
7. Rules regarding e-Way Bill under GST.  
GST के तहत e-Way बिल से सम्बन्धित नियम ।

8. The Assessment process under GST.  
GST के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया ।
9. The brief history of GST in India.  
भारत में GST का संक्षिप्त इतिहास ।
10. The provisions of Appeal and Revision under GST.  
GST के तहत अपील तथा रिवीजन के प्रावधान ।

## Section B

### खण्ड 'ब'

**Note :** Attempt all questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

11. Discuss and detailed out the brief history of GST in India. Is Goods and Services Tax Act, 2017 is an addition to existing tax laws in the field ? 12  
भारत में GST के संक्षिप्त इतिहास का विस्तृत वर्णन कीजिए । क्या माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 क्षेत्र में मौजूदा कर कानूनों के अतिरिक्त है ?

13. "Valuation under GST Act, 2017 do not differ in specific cases." Explain. **11**

“GST अधिनियम, 2017 के तहत मूल्यांकन विशेष मामलों में अलग नहीं होते हैं।” व्याख्या कीजिए।

*Or* (अथवा)

Explain and exemplify in detail the provisions relating to the Input Tax Credit and e-Way Bill of goods under GST law in India.

भारत में GST कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट और माल के e-Way बिल से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताइए तथा उदाहरण दीजिए।

13. "Valuation under GST Act, 2017 do not differ in specific cases." Explain. **11**

“GST अधिनियम, 2017 के तहत मूल्यांकन विशेष मामलों में अलग नहीं होते हैं।” व्याख्या कीजिए।

*Or* (अथवा)

Explain and exemplify in detail the provisions relating to the Input Tax Credit and e-Way Bill of goods under GST law in India.

भारत में GST कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट और माल के e-Way बिल से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताइए तथा उदाहरण दीजिए।